



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी प्रेस नोट

दिनांक-05.01.2023

थाना सारनाथ पुलिस टीम द्वारा हत्या के मामले में वांछित अभियुक्त अर्जुन भारती गिरफ्तार

श्रीमान् पुलिस आयुक्त वाराणसी के वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के निर्देशन में एवं श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त सारनाथ के पर्यवेक्षण में थाना सारनाथ पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0-007/2023 धारा 302 भादवि के वांछित नामजद अभियुक्त अर्जुन भारती पुत्र स्व0 रामकिशुन भारती निवासी घुरीपुर थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी को मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक-05.01.2023 को समय करीब 10.45 बजे हृदयपुर अन्डर पास से गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना सारनाथ पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण- दिनांक-04.01.2023 को वादिनी मुकदमा मुन्नी देवी पत्नी स्व0 रामकिशुन निवासी घुरीपुर थाना सारनाथ की लिखित तहरीर के आधार पर थाना सारनाथ में मु0अ0सं0-07/2023 धारा 302 भादवि पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना प्र0नि0 धर्मपाल सिंह द्वारा संपादित की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

अर्जुन भारती पुत्र स्व० रामकिशुन भारती निवासी घुरीपुर थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी उम्र करीब 24 वर्ष
विवरण पूछताछ-अभियुक्त अर्जुन भारती ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं ओमप्रकाश सोनी का मित्र था। घटना के दिन अचानक से ओमप्रकाश सोनी व मेरे बीच शराब के नशे में मार-पीट होने लगी और तभी मैंने उसे रॉड से मार दिया। मैं उसे जान से मारना नहीं चाहता था। रॉड काफी जोर से उसे लग गया और वह वहीं गीर गया, तब मैं वहाँ से डर कर भाग गया था बाद मे मुझे खबर मिली की उसकी मृत्यु हो गयी है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- 1.प्र०नि० धर्मपाल सिंह थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी
- 2.उ०नि० सोमन कुमार थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी
- 3.उ०नि० मनीष सिंह थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी
- 4.का० गोरख प्रसाद थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी
- 5.का० सिकन्दर थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी
- 6.म०का० दुर्गावती थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी
- 7.हे०का० रामबाबू थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी
- 8.हे०का० रामानन्द थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी